

MP BOARD CLASS 12 MATHS SAMPLE PAPER-SET 1

SET-A

उच्च गणित

(Higher Mathematics)
(Hindi & English Version)

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

Time : 3 Hours

Maximum Marks: 100

निर्देश—

- सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।
- प्रश्नों में दिये गये निर्देशों सावधानीपूर्वक पढ़कर सही उत्तर लिखिए।
- प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिये गये हैं।
- प्रश्न क्र. 01 से 05 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिये गये हैं।
- प्रश्न क्र. 6 से 24 में आन्तरिक विकल्प दिये गये हैं।
- जहाँ आवश्यक हो, स्वच्छ नामांकित रेखाचित्र बनाइये।

Note:

- All question are compulsory.
 - Read the given instruction of Question paper carefully and write Correct answer of them.
 - Allotted marks are Indicated in front of each question.
 - Question No. 01 to 05 are objective type questions.
 - Internal options are given in question No. 06 to 24
 - Draw the neat and clean labelled diagram if necessary.
1. सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए— **1 × 5 = 5** अंक

(a) मिन्न $\frac{2x-3}{(x-1)(x-2)}$ का आंशिक मिन्न हैं :

- (i) $\frac{1}{(x-1)} - \frac{1}{(x-2)}$ (ii) $\frac{1}{(x-2)} - \frac{1}{(x-1)}$
(iii) $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2}$ (iv) $\frac{-1}{x-1} + \frac{1}{x-2}$

(b) $\sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} - 3 \sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2}$ का मान होगा :

- (i) $-\frac{3\pi}{4}$ (ii) $\frac{3\pi}{4}$
(iii) $\frac{\pi}{4}$ (iv) $\frac{\pi}{2}$

(c) बिन्दु (4, 3, 5) की xz समतल से लम्बवत् दूरी है :

- (i) 4 (ii) 3
(iii) 5 (iv) $5\sqrt{2}$

(d) समतल $x + y + z + 3 = 0$ के अभिलंब की दिक्कोज्याएँ हैं :

- (i) 1, 1, 1 (ii) $\pm 1, \pm 1, \pm 1$

(iii) $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ (iv) $1, 1, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$

(e) गोले $6x^2 + 6y^2 + 6z^2 - 16x + 9z - 6 = 0$ के केन्द्र के निर्देशांक हैं :

(i) $\left(\frac{3}{4}, 0, \frac{4}{3}\right)$ (ii) $(-16, 0, 9)$

(iii) $\left(-8, 0, \frac{9}{2}\right)$ (iv) $\left(\frac{4}{3}, 0, \frac{-3}{4}\right)$

choose the correct answer and write in note book-

(a) Partial fractions of $\frac{2x-3}{(x-1)(x-2)}$ are

(i) $\frac{1}{(x-1)} - \frac{1}{(x-2)}$ (ii) $\frac{1}{(x-2)} - \frac{1}{(x-1)}$

(iii) $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2}$ (iv) $\frac{-1}{x-1} + \frac{1}{x-2}$

(b) Value of $\sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} - 3 \sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2}$ is

(i) $-\frac{3\pi}{4}$ (ii) $\frac{3\pi}{4}$

(iii) $\frac{\pi}{4}$ (iv) $\frac{\pi}{2}$

(c) Perpendicular distance of point $(4, 3, 5)$ from xz -plane is

(i) 4 (ii) 3

(iii) 5 (iv) $5\sqrt{2}$

(d) Direction cosine of normal to the plane are :

(i) $1, 1, 1$ (ii) $\pm 1, \pm 1, \pm 1$

(iii) $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ (iv) $1, 1, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$

(e) Coordinates of centre of sphere $6x^2 + 6y^2 + 6z^2 - 16x + 9z - 6 = 0$ are

(i) $\left(\frac{3}{4}, 0, \frac{4}{3}\right)$ (ii) $(-16, 0, 9)$

(iii) $\left(-8, 0, \frac{9}{2}\right)$ (iv) $\left(\frac{4}{3}, 0, \frac{-3}{4}\right)$

2. निम्नलिखित कथनों में सत्य / असत्य लिखिए—

1 × 5 = 5 अंक

(a) शीर्ष $(1, 2, 3), (1, 0, 3), (0, 2, 0)$ वाले त्रिभुज के केन्द्रक के निर्देशांक $(1, 4/3, 2)$ हैं।

(b) यदि बिन्दुओं P और Q के स्थिति सदिश क्रमशः $\hat{i} + 3\hat{j} - 7\hat{k}$ और $5\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$ हो तो $|PQ|$ का मान $9\sqrt{2}$ होगा।

(c) $\sin x + \cos x$ का महत्तम मान 2 होगा।

(d) यदि $\sum x = 15, \sum y = 40, \sum xy = 110$ तथा $n = 5$ तब x और y के बीच सह-प्रसरण – 2 होगा।

(e) समाश्रयण गुणांकों का समान्तर माध्य सह गुणांक से बड़ा होता है।

Write true/ false in the following statements.

- (a) $(1, \frac{4}{3}, 2)$ is the coordinate of centroid of triangle whose vertices are $(1, 2, 3)$ $(1, 0, 3)$ $(0, 2, 0)$.
- (b) Position vectors of point p & Q are $\hat{i} + 3\hat{j} - 7\hat{k}$ and $5\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$ respectively then value of $|PQ|$ is $9\sqrt{2}$
- (c) Maximum value of $\sin x + \cos x$ is 2
- (d) If $\sum x = 15$, $\sum y = 40$, $\sum xy = 110$ and $n = 5$ then covariance between x and y is -2
- (e) The arithmetic mean of the regression coefficients is greater than the coefficient of co-relation.

3. प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर दीजिए :

1 × 5 = 5 अंक

- (a) यदि $|\vec{a}| = 13$, $|\vec{b}| = 5$ और $\theta = 60^\circ$ हो, तो $|\vec{a} \times \vec{b}|$ का मान क्या होगा ?
- (b) $\cos x^2$ का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक क्या होगा ?
- (c) शून्य का समाकल क्या होगा ?
- (d) दो रेखाओं $\vec{r} = \vec{a} + \lambda \vec{b}$ तथा $\vec{r} = \vec{c} + \mu \vec{d}$ के लम्बवत् होने का प्रतिबन्ध क्या होगा ?
- (e) किसी फलन के मूल ज्ञात करने के लिए समलम्ब चतुर्भुजीय नियम का सूत्र लिखिए।

Give the answer in one sentence:

- (a) If $|\vec{a}| = 13$, $|\vec{b}| = 5$ and $\theta = 60^\circ$ then what will be the value of $|\vec{a} \times \vec{b}|$
- (b) What is differential coefficient of $\cos x^2$ with respect to x .
- (c) What will be the Integration of zero ?
- (d) What will be the condition for perpendicularity of two lines $\vec{r} = \vec{a} + \lambda \vec{b}$ and $\vec{r} = \vec{c} + \mu \vec{d}$
- (e) Write formula to find roots of a function by Trapezoidal rule.

4. सही जोड़ी बनाइए :

1 × 5 = 5 अंक

स्तम्भ "अ"

स्तम्भ "ब"

- | | |
|--|--|
| (a) $\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx$ | (i) $\log(x + \sqrt{x^2 - a^2})$ |
| (b) $\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx$ | (ii) $\log \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)$ |
| (c) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx$ | (iii) $\frac{1}{2a} \log \frac{x-a}{x+a}, x > a$ |
| (d) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx$ | (iv) $\frac{1}{2a} \log \frac{a+x}{a-x}, x < a$ |
| (e) $\int \sec x dx$ | (v) $\log(x + \sqrt{x^2 + a^2})$ |

Match the Columns -

Column 'A' Column 'B'

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| (a) $\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx$ | (i) $\log(x + \sqrt{x^2 - a^2})$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|

- (b) $\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx$ (ii) $\log \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right)$
- (c) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx$ (iii) $\frac{1}{2a} \log \frac{x-a}{x+a}, x > a$
- (d) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx$ (iv) $\frac{1}{2a} \log \frac{a+x}{a-x}, x < a$
- (e) $\int \sec x dx$ (v) $\log (x + \sqrt{x^2 + a^2})$

5. खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए : **1 × 5 = 5** अंक

- (a) e^x का n वाँ अवकलज है।
- (b) $\int_a^b f(x) dx$ के लिए सिम्पसन नियम है।
- (c) प्रसिद्ध पुस्तक "वैदिक गणित" के लेखक का पूरा नाम है।
- (d) न्यूटन रैफसन विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का सूत्र है।
- (e) यदि $x_0 = 3.5, f(x_0) = 0.25, f'(x_0) = 7$, हो तो न्यूटन-रैफसन विधि से x_1 का मान है।
fill in the blanks -
- (A) n^{th} derivative of e^x is
- (B) Simpson's rule for $\int_a^b f(x) dx$ is.....

- (C) The full name of the writer of famous book "Vedic mathematics" is
- (D) By newton raphson method the formula is for finding the square root of a.
- (E) If $x_0 = 3.5, f(x_0) = 0.25, f'(x_0) = 7$ then by Newton Raphson method the value of x_1 is.....

6. उस गोले का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केन्द्र $(2, -3, 4)$ तथा त्रिज्या 5 है ? 2 अंक

Find the vector and cartesian equation of the sphere whose centre $(2, -3, 4)$ and radius is 5 ?

अथवा / OR

उस गोले का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो गोले $|\vec{r} + (\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k})| = 5$ के संकेन्द्री है और जो इससे दो गुनी त्रिज्या का है।

Find the vector equation of the sphere concentric with the sphere $|\vec{r} + (\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k})| = 5$ and its radius is two times of that sphere ?

7. यदि $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ तथा $\vec{c} = \hat{j} + \hat{k}$ तब $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$ का मान ज्ञात कीजिए ? 2 अंक

If $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ and $\vec{c} = \hat{j} + \hat{k}$ then find the value of $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$?

अथवा / OR

सिद्ध कीजिए कि—

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$$

Prove that –

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$$

8. यदि $\vec{a} = 2\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - 3\hat{j} - 7\hat{k}$ तथा $\vec{c} = -3\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ हो तो $[\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}]$ मान ज्ञात कीजिए। 2 अंक

If $\vec{a} = 2\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - 3\hat{j} - 7\hat{k}$ and $\vec{c} = -3\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ then find the value of $[\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}]$

अथवा / OR

दो सदिशों $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ तथा $\vec{b} = 3\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$ का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए।

find the scalar product of two vectors $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ and $\vec{b} = 3\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$?

9. $\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$ का मान ज्ञात कीजिए। 2 अंक

Evaluate $\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$

अथवा / OR

$\int \frac{dx}{\sin x - \cos x}$ का मान ज्ञात कीजिए।

Evaluate $\int \frac{dx}{\sin x - \cos x}$

10. $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} \, dx$ का मान ज्ञात कीजिए। 2 अंक

Evaluate $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} \, dx$

अथवा / OR

सिद्ध कीजिए $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \, dx = \frac{\pi}{4}$

Prove that $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \, dx = \frac{\pi}{4}$

11. $\frac{x^2 + x + 1}{(x-1)^3(x+1)}$ को आंशिक भिन्नों में विभक्त कीजिए। 4 अंक

Resolve $\frac{x^2 + x + 1}{(x-1)^3(x+1)}$ Into partial fractions.

अथवा / OR

$\frac{2x^2 + 5x - 11}{x^2 + 2x - 3}$ को आंशिक भिन्नों में विभक्त कीजिए।

Resolve $\frac{2x^2 + 5x - 11}{x^2 + 2x - 3}$ Into partial fractions.

12. यदि $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y = \frac{\pi}{2}$ हो, तो सिद्ध कीजिए कि $x^2 + y^2 = 1$

If $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y = \frac{\pi}{2}$ then prove that $x^2 + y^2 = 1$

अथवा / OR

समीकरण $\tan^{-1}x + 2 \cot^{-1}x = \frac{2\pi}{3}$ को हल कीजिए।

Solve the equation $\tan^{-1}x + 2 \cot^{-1}x = \frac{2\pi}{3}$

13. यदि $x^y = e^{x-y}$ हो, तो सिद्ध कीजिए कि—

4 अंक

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\log_e x}{(1+\log_e x)^2}$$

If $x^y = e^{x-y}$ then prove that -

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\log_e x}{(1+\log_e x)^2}$$

अथवा / OR

यदि $\log_e(xy) = x^2 + y^2$ हो, तो सिद्ध कीजिए कि—

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(2x^2 - 1)}{x(1 - 2y^2)}$$

If $\log_e(xy) = x^2 + y^2$ then prove that -

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(2x^2 - 1)}{x(1 - 2y^2)}$$

14. यदि $y = \sin(2\sin^{-1}x)$ हो तो सिद्ध करो कि :

4 अंक

$$\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{\frac{1-y^2}{1-x^2}}$$

If $y = \sin(2\sin^{-1}x)$ then prove that

$$\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{\frac{1-y^2}{1-x^2}}$$

अथवा / OR

यदि $y = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2}$ हो, तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिये।

If $y = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2}$ then find $\frac{dy}{dx}$.

15. एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी. प्रति सेकण्ड की एक समान दर से बढ़ रही है। वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि किस दर से होगी जबकि उसकी त्रिज्या 8 सेमी. है।

4 अंक

The radius of a circle is increasing at the rate of 2 cm/sec. At what rate is the area increasing when the radius is 8 cm.

अथवा / OR

यदि लाभ फलन $P(x) = 41 + 24x - 18x^2$ है, तो कम्पनी द्वारा प्राप्त किया गया उच्चिष्ठ लाभ ज्ञात कीजिए।

If the profit function is $P(x) = 41 + 24x - 18x^2$ then calculate the maximum profit of the company.

16. दो चर राशियों x तथा y के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक r हो तो सिद्ध कीजिए कि –

4 अंक

$$r = \frac{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_{x-y}^2}{2\sigma_x\sigma_y}$$

जहाँ σ_x^2, σ_y^2 तथा σ_{x-y}^2 क्रमशः x, y तथा $(x - y)$ के विचरण गुणांक हैं।

If r is the coefficient of correlation between two variables x and y then prove that :

$$r = \frac{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_{x-y}^2}{2\sigma_x\sigma_y}$$

where σ_x^2, σ_y^2 and σ_{x-y}^2 are variable of x, y and $(x - y)$ respectively.

अथवा / OR

निम्नलिखित आँकड़ों से सह-सम्बन्ध गुणांक की गणना कीजिए :

x	2	3	5	7	3
y	15	17	4	5	4

Calculate coefficient of correlation from the following data

x	2	3	5	7	3
y	15	17	4	5	4

17. निम्नलिखित आँकड़ों से y का मान ज्ञात कीजिए जबकि $x = 70$ तथा सहसम्बन्ध गुणांक 0.8 है ?

4 अंक

	x	y
माध्य	18	100
माध्य विचलन	14	20

Find the value of y from following data, when $x = 70$ and coefficient of correlation is 0.8.

अथवा / OR

यदि समाश्रयण रेखाओं के मध्य कोण θ है, तो सिद्ध कीजिए कि,

$$\tan \theta = \frac{\sigma_x \cdot \sigma_y}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} \left| \frac{\rho^2 - 1}{\rho} \right|$$

If θ be the angle between the regression line, then prove that

$$\tan \theta = \frac{\sigma_x \sigma_y}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} \left| \frac{\rho^2 - 1}{\rho} \right|$$

18. समतलों $x + 3y + 6 = 0$ तथा $3x - y - 4z = 0$ के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतलों के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी मूल बिन्दु से दूरी 1 है

5 अंक

Find the equation of planes passing through the intersection of the planes $x + 3y + 6 = 0$ and $3x - y - 4z = 0$ whose distance from origin is 1.

अथवा / OR

समतलों $3x - 4y + 12z = 26$ एवं $2x - y + 2z + 3 = 0$ के बीच न्यून कोण समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए।

Find the equation of the plane bisecting the acute angle between the planes $3x - 4y + 12z = 26$ and $2x - y + 2z + 3 = 0$

19. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ex - \cot x}{x}$ का मान ज्ञात कीजिए ?

5 अंक

Evaluate $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ex - \cot x}{x}$

अथवा / OR

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases} \text{ की } x = 0 \text{ पर सांतत्य की जाँच कीजिए ?}$$

$$\text{If } f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases} \text{ than test the continuity at } x = 0$$

20. मान ज्ञात कीजिए-

5 अंक

$$\int \frac{\sin x + \cos x}{3\sin x + 2\cos x} dx$$

Evaluate-

$$\int \frac{\sin x + \cos x}{3\sin x + 2\cos x} dx$$

अथवा / OR

दीर्घ वृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ और रेखा $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ के मध्य परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?

Find the area inclosed between the curve $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ and straight line $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

21. अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y+1}{2x+2y+3}$ की हल कीजिए।

5 अंक

Solve the differential equation

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y+1}{2x+2y+3}$$

अथवा / OR

अवकल समीकरण $(1 + y^2) dx = (\tan^{-1} y - x) dy$ को हल कीजिये?

Solve the differential equation $(1 + y^2) dx = (\tan^{-1} y - x) dy$

22. 52 पत्तों की फेंटी हुई ताश की गड्ढी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। दोनों के लाल या इक्के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ? 5 अंक

Two cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards, find the probability that both cards are red or ace.

अथवा / OR

एक पाँसा दो बार उछाला जाता है प्रत्येक उछाल में सम संख्या आने पर सफलता मानी जाती है। सफलताओं का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए।

A dice is thrown twice in throw getting even number is taken success, find the probability distribution of the success.

23. उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिन्दुओं $(1, -3, 4), (1, -5, 2)$ और $(1, -3, 0)$ से होकर जाता है तथा जिसका केन्द्र समतल $x + y + z = 0$ पर स्थित है। 6 अंक
Find the equation of the sphere which passes through the points $(1, -3, 4), (1, -5, 2)$ and $(1, -3, 0)$ whose centre lies on the plane $x + y + z = 0$.

अथवा / OR

दो बिन्दु $A(1, 3, 4)$ तथा $B(1, -2, -1)$ हैं। एक बिन्दु P इस प्रकार गति करता है कि $3PA = 2PB$ बिन्दु P का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि वह एक गोला है।

There are two points $A(1, 3, 4)$ and $B(1, -2, -1)$. A point p moves Such that $3PA = 2PB$ find the locus of P and prove that it is a sphere.

24. सदिश विधि से उस बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए जो बिन्दुओं $A(3, 4, -5)$ तथा $B(-2, 1, 4)$ से समदूरस्थ है। 6 अंक

By using vector method find the locus of a point which is equidistant from the points $A(3, 4, -5)$ and $B(-2, 1, 4)$

अथवा / OR

सदिश विधि से सिद्ध कीजिए—

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta - \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

Prove by vector method

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta - \cos\alpha \cdot \sin\beta$$